



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 18 पटना, बुधवार, 13 वैशाख 1945 (श०)
3 मई 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-10
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेशों के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	11-12
पुरक	---
पुरक-क	13-16

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 अप्रैल 2023

सं० 6/श्रम वि०आ०(02)-23/2021 (खंड) श्र०सं०-08—श्री कुमार आलोक रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-उपकर संग्रहक, पूर्णिया निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक-09.07.2021 को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा श्री कुमार आलोक रंजन के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-027/2021 दिनांक-08.07.2021 धारा-7(a)(c)/12 भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) एवं धारा-120(B) भा०द०वि० दर्ज किया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री कुमार आलोक रंजन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के अंतर्गत प्रावधानों के आलोक में दिनांक-09.07.2021 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या-87 दिनांक-24.08.2021 द्वारा निलंबित किये गये।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-333 दिनांक-03.02.2023 द्वारा श्री कुमार आलोक रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-उपकर संग्रहक, पूर्णिया सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई जो प्रक्रियाधीन है।

4. श्री कुमार आलोक रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-उपकर संग्रहक, पूर्णिया सम्प्रति निलंबित से प्राप्त निलंबन मुक्त करने के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के उप नियम-6(ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार आलोक रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. निलंबन अवधि के वेतनादि एवं दण्ड के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा।

6. इनके पदस्थापन के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

2 मई 2023

सं० 04/STA-(विविध)-30/2016 (खण्ड), परि०-2950—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023 एवं अधिसूचना संख्या-413, दिनांक 23.01.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 एवं अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021 द्वारा पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अधिसूचित मार्ग संख्या-75, 480, 629, 755, 915, 979, 1055, 1202, 1318, 1851, 1856, 1949, 2962, 5173 एवं 5265 कुल-15 मार्ग (सूची संलग्न) में आंशिक संशोधन किया जाता है। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव।

अधिसूचना संख्या-836 दिनांक-05.02.2018 एवं अधिसूचना संख्या-860 दिनांक-08.02.2021 में निम्नवत् सुधार किया जाता है।							
क्र० सं०	रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि.मी.)	अभियुक्ति
1	75	पटना से नवादा	चंडी, बिहारशरीफ	नवादा से पटना	बिहारशरीफ, चंडी	95	आर.टी.ए. पटना
2	480	यदुनाथपुर से सासाराम	परछा, चुटिया, नौहट्टा, बौलिया, रोहतास, तिलौथु, रामारानी, डिहरी रेलवे स्टेशन	सासाराम से यदुनाथपुर	डिहरी रेलवे स्टेशन, रामारानी, तिलौथु, रोहतास, बौलिया, नौहट्टा, चुटिया, परछा	200	आर.टी.ए. पटना
3	629	कौआकोल से पटना	बलराजी, पकड़ीवर्मा, नवादा, गिरियक, बिहारशरीफ, चंडी, फतुहौं	पटना से कौआकोल	फतुहौं, चंडी, बिहारशरीफ, गिरियक, नवादा, पकड़ीवर्मा, बलराजी	140	आर.टी.ए. पटना
4	755	बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर से मोकामा रेलवे स्टेशन	बरबीघा, भागनबिगहा, बिंद, सरमेरा	मोकामा रेलवे स्टेशन से बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर	सरमेरा, बिंद, भागनबिगहा, बरबीघा	58	आर.टी.ए. पटना
5	915	पटना से डिहरी	बिहटा, आरा, पीरो, बिक्रमगंज, नासरीगंज, राजपुर	डिहरी से पटना	राजपुर, नासरीगंज, बिक्रमगंज, पीरो, आरा, बिहटा		आर.टी.ए. पटना
6	979	राजपुर से आरा	सिमरी, भोजपुर, कृष्णाब्रह्म, ब्रह्मपुर, शाहपुर, बिहियां चौरस्ता	आरा से राजपुर	बिहियां चौरस्ता, शाहपुर, ब्रह्मपुर, कृष्णाब्रह्म, भोजपुर, सिमरी	128	आर.टी.ए. पटना
7	1055	उपहारा से पटना	बनतारा, देवकुंड, तेलपा, करपी, इमामगंज, अतौल्लाह, खिरीमोड़, पालीगंज, दुल्हिनबाजार, बिक्रम, नौबतपुर, खगौल, फुलवारीशरीफ	पटना से उपहारा	फुलवारीशरीफ, खगौल, नौबतपुर, बिक्रम, दुल्हिनबाजार, पालीगंज, खिरीमोड़, अतौल्लाह, इमामगंज, करपी, तेलपा, देवकुंड, बनतारा	111	आर.टी.ए. पटना
8	1202	नौहट्टा से खजूरा बाजार	दारानगर, रोहतास, तिलौथु, डिहरी, सासाराम, कुदरा, मोहनियां	खजूरा बाजार से नौहट्टा	मोहनियां, कुदरा, सासाराम, डिहरी, तिलौथु, रोहतास, दारानगर	160	आर.टी.ए. पटना
9	1318	गायघाट से मीठापुर	अगमकुँआं, कुम्हरार, राजेन्द्रनगर, करबिगहिया जंक्शन	मीठापुर से गायघाट	करबिगहिया जंक्शन, राजेन्द्रनगर, कुम्हरार, अगमकुँआं	20	आर.टी.ए. पटना

10	1851	दरभंगा से कुशेश्वरस्थान	राजकुमारगंज, दोनार, सोनकी, धरौरा, मझौड़ा बस पड़ाव, बेनीपुर, शिवनगरघाट, सुपौल, बेरचौक, सतीघाट	कुशेश्वरस्थान से दरभंगा	सतीघाट, बेरचौक, सुपौल, शिवनगरघाट, बेनीपुर, मझौड़ा बस पड़ाव, धरौरा, सोनकी, दोनार, राजकुमारगंज		दरभंगा आर0टी0ए0
11	1856	दरभंगा से लौकहा	सकरी, झंझारपुर, खोपा, फुलपरास, सिसवार, बेलदारी, कुसमार, छारापट्टी, बरैलचौक, खुटौना, करलीपट्टी, नहरी	लौकहा से दरभंगा	नहरी, करलीपट्टी, खुटौना, बरैलचौक, छारापट्टी, कुसमार, बेलदारी, सिसवार, फुलपरास, खोपा, झंझारपुर, सकरी		दरभंगा आर0टी0ए0
12	1949	लहेरियासराय से सुपौल	बहेड़ी, शंकरलोहार, शाहोपररी, पटनियों, पोखराम	सुपौल से लहेरियासराय	पोखराम, पटनियों, शाहोपररी, शंकरलोहार, बहेड़ी,		दरभंगा आर0टी0ए0
13	2962	महुली से बाढ़	अरीयरी, शेखपुरा, बरबीघा, गोपालवाद, दरवेभदौर	बाढ़ से महुली	दरवेभदौर, गोपालवाद, बरबीघा, शेखपुरा, अरीयरी	70	आर.टी.ए. पटना
14	5173	हनुमान नगर से पटना जंक्शन	मलाहीपकड़ी, दिनकर चौक, नाला रोड, साहित्य सम्मेलन	पटना जंक्शन से हनुमान नगर	साहित्य सम्मेलन, नाला रोड, दिनकर चौक, मलाहीपकड़ी		आर.टी.ए. पटना
15	5265	वारसलीगंज से पटना	मायापुर, नुआवां, सारे, बिहारशरीफ खंदकपर, बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर, जैतीपुर, दनियावां, फतुहां,	पटना से वारसलीगंज	फतुहां, दनियावां, जैतीपुर, बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर, बिहारशरीफ खंदकपर, सारे, नुआवां, मायापुर		आर.टी.ए. पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

28 अप्रैल 2023

सं0 02/शमन-03/2016, परि0-2889—यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-9259, दिनांक 23.10.2022 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.10.2022 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी।

अतः उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरांत कार्यहित में पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर उपर्युक्त धाराओं के तहत दिये गये शमन की शक्ति को दिनांक-23.04.2023 की तिथि से दिनांक-22.10.2023 तक के लिए विस्तारित की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र0 सं0	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

28 अप्रैल 2023

सं० 02/शमन-07(A)/2015, परि०-2886—अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमें दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2637, दिनांक-27.04.2022 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओपीओ प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-27.04.2022 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए **मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा- 177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E एवं धारा-194F** के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं यातायात के मुक्त प्रवाह को बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिये गये उपर्युक्त धाराओं के तहत शमन की शक्ति के अतिरिक्त इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से दिनांक-26.04.2023 तक के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-201 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त धाराओं के तहत दी गयी शमन की शक्ति अगली अवधि दिनांक-27.04.2023 से 26.04.2024 तक विस्तारित की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र०सं०	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1.	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सम्पूर्ण जिला क्षेत्र
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	संबंधित अनुमंडल क्षेत्र
3.	प्रभाग पुलिस निरीक्षक	प्रभाग के अन्तर्गत आनेवाले सभी थाना क्षेत्र
4.	थानाध्यक्ष	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5.	ओपीओ प्रभारी	सम्पूर्ण ओपीओ क्षेत्र

2. मनी रसीद/सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एवं वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक-546, दिनांक-01.02.2016 प्रभावी होगा।

3. सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि शमन की शक्ति के तहत जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद/सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए एवं शमन से प्राप्त राशि को ब्यौरावार संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद/सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियों को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय जहां से उक्त मनी रसीद/सीजर प्राप्त किया गया था, को वापस किया जाए।

5. व्यवहृत/अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकक्षण यथाशीघ्र कराना एवं व्यवहृत रसीदों की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संबंधित पंजी में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. शक्ति प्रदत्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शमन हेतु जो रसीद काटी जाए उसमें वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

9. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणाधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदित भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके।

10. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार से अनुरोध है कि गृह विभाग के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

3 अप्रैल 2023

सं० बि०वि०सं०-01/2020-575/वि०सं०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 (त) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार विधान सभा की बिहार विरासत विकास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1. श्री प्रेम कुमार	सं०वि०सं०	सभापति
2. श्री राम प्रवेश राय	सं०वि०सं०	सदस्य
3. श्री विनय बिहारी	सं०वि०सं०	सदस्य
4. श्री राजेश कुमार	सं०वि०सं०	सदस्य
5. श्री विद्या सागर केशरी	सं०वि०सं०	सदस्य
6. श्री पवन कुमार यादव	सं०वि०सं०	सदस्य
7. श्री ऋषि कुमार	सं०वि०सं०	सदस्य
8. श्री विश्व नाथ राम	सं०वि०सं०	सदस्य
09. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह	सं०वि०सं०	सदस्य
10. श्री अमन भूषण हजारी	सं०वि०सं०	सदस्य

श्री प्रेम कुमार, सं०वि०सं० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2024 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय, सचिव।

3 अप्रैल 2023

सं० प्रश्न एवं ध्या०सं०-02/2020-838/वि०सं०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292(क) के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार विधान सभा की “प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति” का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय,	सं०वि०सं०	सभापति,
2. डॉ० सी० एन० गुप्ता,	सं०वि०सं०	सदस्य,
3. श्री आनन्द शंकर सिंह,	सं०वि०सं०	सदस्य,
4. श्री सुनील मणि तिवारी,	सं०वि०सं०	सदस्य,
5. श्री मोहम्मद कामरान,	सं०वि०सं०	सदस्य,
6. श्री पंकज कुमार मिश्र,	सं०वि०सं०	सदस्य,
7. श्री नारायण प्रसाद,	सं०वि०सं०	सदस्य,
8. श्री विजेन्द्र चौधरी,	सं०वि०सं०	सदस्य,
9. डॉ० सत्येन्द्र यादव,	सं०वि०सं०	सदस्य,
10. श्री सुधाकर सिंह,	सं०वि०सं०	सदस्य ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सं०वि०सं० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय, सचिव।

3 अप्रैल 2023

सं० शून्यकाल-14/20-851/वि०स०।-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292(ण) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1. श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०	सभापति
2. श्री निरंजन राय	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री लखेंद्र कुमार रौशन	स०वि०स०	सदस्य
4. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य
5. श्री सतानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०	सदस्य
6. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०	सदस्य
7. श्री अरूण सिंह	स०वि०स०	सदस्य
8. श्री आलोक रंजन	स०वि०स०	सदस्य
9. श्री देवेश कान्त सिंह	स०वि०स०	सदस्य
10. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०	सदस्य ।

श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2024 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय, सचिव।

3 अप्रैल 2023

सं० 2स्था०-219/2021-863/वि०स०।-श्रीमती मीमांशा चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-519(22), दिनांक-15.02.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 240 (क) एवं 248 (क) के अनुसरण में दिनांक-21.02.2023 से 10.03.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-11.03.2023 एवं 12.03.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात् इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-27 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,
अनुपमा प्रसाद, उप-सचिव।

3 अप्रैल 2023

सं० 2स्था०-181/2018-868/वि०स०।-श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप सचिव सम्प्रति निदेशक, बिहार विधान सभा, जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,09,100/-रुपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कॉडिका-G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक-21.04.2023 से 25.04.2023 तक पटना से श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) एवं श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से पटना तक की यात्रा के निमित्त दिनांक-21.04.2023, 24.04.2023 एवं 25.04.2023 को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक-22.04.2023 एवं 23.04.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही दिनांक-21.04.2023 से 25.04.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-679, दिनांक-04.03.2023 को विखंडित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अनुपमा प्रसाद, उप-सचिव।

3 अप्रैल 2023

सं० 2स्था०-214/2021-870/वि०स०।-श्रीमती महिमा प्रभाकर, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-735 (22), दिनांक-13.03.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 240 (क) एवं 248 (क) के अनुसरण में दिनांक-06.02.2023 से 17.02.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-18.02.2023 एवं 19.02.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात् इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-32 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,
अनुपमा प्रसाद, उप-सचिव।

26 अप्रैल 2023

सं० 2स्था०-73/2021-1031/वि०स०।-वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-880(22), दिनांक-23.03.2023 के आलोक में श्री हेमन्त शर्मा, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-240 एवं 248(क) के तहत दिनांक-22.12.2022 तथा दिनांक-09.01.2023 से 20.01.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-21.01.2023 एवं 22.01.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है। अवकाश उपभोग के उपरान्त इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-33 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,
अनुपमा प्रसाद, उप-सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

21 अप्रैल 2023

सं० एल/एच०जी०-14-01/2021-4836—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-2512, दिनांक-05.04.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1075(23), दिनांक-22.09.2021 द्वारा प्रतिवेदित अवकाश आदेयता के आलोक में श्री विनोद कुमार यादव, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-05.03.2021 से 31.03.2021 तक कुल 27 (सत्ताईस) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 196 के तहत दिनांक-01.04.2021 से 14.10.2021 तक कुल 197 (एक सौ सन्तानबे) दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 19th April 2023

No. XI-K-रा०-02/2023-1674---In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.- 62, dated- 11.04.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases related to PM Awas Yojana (Rural) u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Akram Najafi	BDO, Arwal	Arwal Block Level
2	Md. Yunus Salim	BDO, Kaler	Kaler Block Level

3	Sri Jiyaul Haque	BDO, Kurtha	Kurtha Block Level
4	Sri Rajiv Kumar Sinha	BDO, Karpi	Karpi Block Level
5	Sri Rakesh Gupta	BDO, Sonbhadra Wansi Suryapur	Sonbhadra Wansi Suryapur Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dated 18.04.2023.

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 19th April 2023

No. XI-K-रा०-02/2023-1678---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.- 880, dated- 18.04.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases related to PM Awas Yojana (Rural) u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Awlutya Kumar Arya	BDO, Amas	Amas Block Level
2	Sri Kranti Kumar	BDO, Atri	Atri Block Level
3	Sri Atul Prasad	BDO, Bankebazar	Bankebazar Block Level
4	Sri Pankaj Kumar	BDO, Barachatti	Barachatti Block Level
5	Smt Kamla Kumari	BDO, Neemchak Bathani	Neemchak Bathani Block Level
6	Sri Kundan Kumar	BDO, Belaganj	Belaganj Block Level
7	Sri Satish Kumar	BDO, Bodhgaya	Bodhgaya Block Level
8	Sri Sanjeev Kunar Jha	BDO, Dobhi	Dobhi Block Level
9	Smt Puspawati Singh	BDO, Dumariya	Dumariya Block Level
10	Sri Parmanand Pandit	BDO, Fatehpur	Fatehpur Block Level
11	Sri Rajdev Kumar Rajak	BDO, Gururu	Gururu Block Level
12	Sri Manish Kumar	BDO, Gurua	Gurua Block Level
13	Sri Rajesh Kumar	BDO, Imamganj	Imamganj Block Level
14	Sri Pawan Kumar Thakur	BDO, Khizarsarai	Khizarsarai Block Level
15	Sri Pradeep Kumar Chaudhary	BDO, Konch	Konch Block Level
16	Sri Mritunjay Kumar	BDO, Manpur	Manpur Block Level
17	Sri Vikash Kumar	BDO, Mohanpur	Mohanpur Block Level
18	Sri Akash Chaudhary, IAS	BDO, Mohra	Mohra Block Level
19	Sri Balwant Pandey	BDO, Nagar	Nagar Block Level
20	Sri Veer Bahadur Thakur	BDO, Paraiya	Paraiya Block Level
21	Sri Prasant Kumar Prasunn	BDO, Sherghati	Sherghati Block Level
22	Sri Rahul Kumar	BDO, Tankuppa	Tankuppa Block Level
23	Sri Niraj Anand	BDO, Tikari	Tikari Block Level
24	Sri Ravishankar Kumar	BDO, Wazirganj	Wazirganj Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 18.04.2023.

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order
The 20th April 2023

No. XI-K-रा0-02/2023-1694---In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.- 664, dated- 17.04.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases related to PM Awas Yojana (Rural) u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Prabhakar Kumar	BDO, Ghoshi	Ghoshi Block Level
2	Sri Avinash Kumar	BDO, Hulasganj	Hulasganj Block Level
3	Sri Ved Prakash	BDO, Jehanabad	Jehanabad Block Level
4	Sri Sanjeev Kumar	BDO, Kako	Kako Block Level
5	Sri Prabhakar Singh	BDO, Makhdumpur	Makhdumpur Block Level
6	Sri Rakesh Kumar	BDO, Modanganj	Modanganj Block Level
7	Smt. Gayatri Devi	BDO, Ratani Faridpur	Ratani Faridpur a Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 20.04.2023

By Order,
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 7—571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 522—I, Saurabh Raj, S/O Gautam Prasad, R/O- Gewal Bigha Police Line Road, P.S.- Rampur, Gaya, Bihar declares that in my matric certificates my name is wrongly mentioned as SAURAV RAJ but my correct name is SAURABH RAJ. Vide Affidavit No.-16, Dated 10.03.23.

Saurabh Raj.

No. 523—I, Ayushi D/o Anand Shankar, R/o F-47 , 2nd floor P.C Colony Kankarbagh, Patna, Bihar-800020 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 2779 dated 31-03-23 that my name is written in My all educational and other document including Aadhar card as Ayushi. From now I will be known as Ayushi Kumar for all purposes.

Ayushi.

सं० 524—मैं प्रेम प्रकाश, पिता शंकर प्रसाद साह, पता—ग्रा.+पो.—केवटा, थाना—दलसिंहसराय, जिला—समस्तीपुर, बिहार शपथ पत्र सं. 7900 दिनांक 20.2.23 के द्वारा अब मैं प्रेम प्रकाश गुप्ता के बदले प्रेम प्रकाश के नाम से जाना जाऊंगा।

प्रेम प्रकाश।

No. 524—I, PREM Prakash S/o Shanker Prasad Sah, Add. Vill.+PO-Keota, Dist.- Samastipur, State-Bihar declare vide affidavit no.7900 dated 20.2.23 that I have changed my name from Prem Prakash Gupta to Prem Prakash for all future purposes.

PREM Prakash.

सं० 525—मैं शैलेश कुमार सिंह (SHAILESH KUMAR SINGH) पिता सुखदेव प्रसाद, पता—मकान नं०-20, वार्ड नंबर हसनी, नालंदा बिहार 803108 शपथ पत्र सं०-2180 दिनांक 21.02.23 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र अनुभव अंकेश (ANUBHAV ANKESH) के आधार में उसका नाम अनुभव (ANUBHAV) दर्ज है जो गलत है एवं जन्म प्रमाण पत्र में नाम अनुभव अंकेश (ANUBHAV ANKESH) दर्ज है जो सही है। मेरा पुत्र अब अनुभव अंकेश (ANUBHAV ANKESH) के नाम से जाने पहचाने जायेंगे।

शैलेश कुमार सिंह।

सं0 526—मैं दिनानाथ सिंह, पिता—रामदरश सिंह, निवासी—ग्राम—चांदी इंग्लिश, पोस्ट—नटवार, थाना—संझौली, जिला रोहतास, बिहार। शपथ पत्र सं0—1625 दिनांक 2.3.2023 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड सं0—937248757944 में मेरा नाम दिनानाथ रामदरश सिंह दर्ज हो गया है, जो गलत है। मेरे निवास प्रमाण पत्र एवं मतदाता पहचान पत्र में मेरा नाम दिनानाथ सिंह दर्ज है, जो सही है। आगे मैं दिनानाथ सिंह के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

दिनानाथ सिंह।

No. 527—I, Madhulata Kumari W/o Mithlesh Kumar Mishra , R/o Vill+ P.O.- Singhia, P.S.- K Nagar, Distt- Purnea-854304, Bihar do hereby solemnly affirm and State as per affidavit No. 2353/ 23-03-23 that my husband is retired from Indian Navy. In Navel Records office and all related documents my name has been written as Madhulata Mishra. But in all educational and other documents my name is Madhulata Kumari. My real name is Madhulata Kumari and this is useful to all purposes.

MADHULATA Kumari.

सं0 528—मैं दशरथ राय पिता—भजन राय, पता—सीतलपुर, बाराडीह, थाना—चकिया, अंचल—कल्याणपुर, जिला—पूर्वी चम्पारण शपथ द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरा पुत्र लुकेश कुमार के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में गलती से मेरा नाम दशरथ प्रसाद यादव दर्ज हो गया है, मेरा सही नाम दशरथ राय है मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। शपथ सं0 814 दिनांक 28.03.2023.

दशरथ राय।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 7—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—०९/२०२१—३४५६

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

26 अप्रैल 2023

श्री सत्येन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बाढ़ के विरुद्ध उनके आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में पदस्थापन के दौरान दिनांक 03.03.2021 को जिलाधिकारी, पटना के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में की गई औचक छापेमारी में 02 मोबाईल फोन, 01 मोबाईल सिम एवं 02 पंजियों की बरामदगी, जिला प्रशासन की टीम के कारा पर पहुँचने पर 30 मिनट विलम्ब से कारा का गेट खोले जाने तथा निरीक्षण में पाई गई अन्य कतिपय अनियमितता एवं दिनांक 07.03.2021 को कारा प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में 01 मोबाईल फोन एवं 01 मोबाईल चार्जर तथा दिनांक 08.03.2021 को कारा महानिरीक्षक के नेतृत्व में की गई औचक छापेमारी में पुनः 02 मोबाईल फोन, 01 पेन ड्राईव एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा कारा के अन्दर से बंदियों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किये जाने की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2418 दिनांक 10.03.2021 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6568 दिनांक 30.07.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 13655/सा०प्र०, दिनांक 15.12.2011 की कंडिका-2(1)(ग) के प्रावधान के आलोक में आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के आदेश ज्ञापांक 775/स्था०, दिनांक 01.09.2021 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में नियमानुसार जाँच सम्पन्न कर जाँच अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु जाँच का कार्य संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को हस्तांतरित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-595/स्था०, दिनांक-07.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सत्येन्द्र कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल 07 आरोपों में से आरोप संख्या-01, 02, 05 एवं 07 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-03, 04 एवं 06 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 7362 दिनांक 05.07.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

5. तद्आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 08.09.2022 के विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 301 दिनांक 11.01.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया :-

“संचयी प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड।”

6. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 301 दिनांक 11.01.2023 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि दिनांक-03.03.2021 को जिला प्रशासन एवं दिनांक-08.03.2021 को कारा महानिरीक्षक के नेतृत्व में कारा में की गई औचक छापेमारी में जिस मोबाईल प्राप्ति की बात की गई है, उसमें जिला प्रशासन व महानिरीक्षक द्वारा कोई जल्दी सूची उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही आरोप को सिद्ध करने के लिए आरोप पत्र में जिन चार साक्षियों का नाम अंकित है, उनमें से किसी साक्षियों का साक्ष्य या बयान आरोप पत्र में संलग्न नहीं है। उनका कहना है कि जिस स्पेशल सेल की बात की गयी है, उसकी संख्या दो है, गोलघर-1 एवं गोलघर-2। गोलघर 1 एवं 2 दोनों एक ही मुख्य दरवाजे के आगे-पीछे है। फिर यह कैसे संभव है कि एक ही मुख्य दरवाजे के आगे-पीछे स्थित दो संरचना, जो स्पष्टतः द्रष्टव्य है, को देखने में वे असफल रहे। उनका कहना है कि यह आरोप असत्य है, क्योंकि जब जिला पदाधिकारी द्वारा कारा के अंदर प्रवेश किया गया तो उन्होंने गोलघर जाने की इच्छा जताई, जिसमें कुख्यात बंदी सुबोध सिंह संसीमित थे, लेकिन जब वे गोलघर से बाहर निकले तो डिवीजन वार्ड जाने की बात कही, किन्तु डिवीजन वार्ड न जाकर जुवेनाईल वार्ड चले गये।

श्री सत्येन्द्र कुमार का कहना है कि वे दिनांक-13.02.2021 से 15.02.2021 तक बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में "बंदियों के अधिकार दिवस" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उनके अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार, उपाधीक्षक (प्रशासन) उनके दैनिक कार्यों के अतिरिक्त कारा के सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रभार में थे। समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर में भी 13 फरवरी को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने तथा पुनः 14 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉल किये जाने का उल्लेख है। श्री सत्येन्द्र कुमार का कहना है कि जहाँ तक बंदी कुणाल शर्मा का अपने परिजन से मुलाकात की बात है, तो उनके द्वारा उसे सरयुग खंड (अतिसुरक्षा कक्ष) में संसीमित रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन एक दिन बाद कक्ष से निकालकर अस्पताल में संसीमित किया गया और कारा महानिरीक्षक के दूरभाषित निदेश पर ही बंदी कुणाल शर्मा को उनके पिता से मुलाकात कराया गया था। कारा की भौगोलिक स्थिति के कारण मूलतः जो निम्न संख्या में मोबाईल बरामद हुआ, उसमें उनको दोषी मानकर निलंबित कर दिया गया, जबकि इसमें मूलतः उपाधीक्षक (प्रशासन) श्री संजय कुमार दोषी हैं।

श्री कुमार का कहना है कि उनका न तो अपने अधीनस्थ पर अनियंत्रण था और न ही अपने पदीय दायित्वों के सम्यक् निर्वहन में उनके द्वारा लापरवाही बरती गयी थी। उनका कहना है कि संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा मात्र तीन सुनवाई की गई, जिसमें वे (श्री सत्येन्द्र कुमार) केवल द्वितीय सुनवाई में उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में न तो उनको अपना मौखिक पक्ष रखने का मौका दिया गया और न ही किसी गवाह का बयान लिया गया और न ही उन्हें किसी गवाह से जिरह करने का मौका दिया गया। इसके बावजूद संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-595/स्था०, दिनांक-07.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल 07 आरोपों में से आरोप संख्या-01, 02, 05 एवं 07 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-03, 04 एवं 06 को प्रमाणित प्रतिवेदित कर दिया गया। तद्आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-301 दिनांक-11.01.2023 द्वारा "संचयी प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड" अधिरोपित कर दिया गया।

श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार करने एवं विभागीय संकल्प संख्या-301 दिनांक-11.01.2023 द्वारा निर्धारित दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. श्री सत्येन्द्र कुमार के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि वे न तो पदीय दायित्व में लापरवाह थे और न ही अपने अधीनस्थ कर्मियों पर उनका अनियंत्रण था, किन्तु जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा एवं तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा अलग-अलग तिथियों को कारा में की गई औचक छापेमारी में मोबाईल सहित अनेक प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा कारा में व्याप्त घोर प्रशासनिक कुव्यवस्था से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों के पर्यवेक्षण में पूर्णतः विफल रहे हैं, जो उनकी प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक है। कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने एवं कारा में अपने स्तर से सघन तलाशी की कार्यवाई करने में श्री कुमार विफल रहे हैं, परिणामस्वरूप कारा के अन्दर से बंदियों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया तथा बंदियों द्वारा कारा के भीतर से आपराधिक गतिविधियों का संचालन किया गया। जिला प्रशासन की टीम के कारा पर पहुँचने पर 30 मिनट विलम्ब से कारा गेट का खोला जाना एवं जिलाधिकारी, पटना द्वारा कारा के वार्डों के संबंध में श्री कुमार से जानकारी मांगे जाने पर उन्हें कारा के वार्डों की सामान्य जानकारी नहीं होना, उनकी गंभीर प्रशासनिक विफलता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः विफलता एवं गंभीर अनुशासनहीनता का द्योतक है।

श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। तदोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। परिणामस्वरूप दो अलग-अलग तिथियों को जिला प्रशासन एवं तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा आदर्श केन्द्रीय कारा, बेरूर, पटना में की गई औचक छापेमारी में मोबाईल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ बरामद हुई हैं तथा कारा के अन्दर से बंदियों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया एवं जिला प्रशासन की टीम के कारा पर पहुँचने पर 30 मिनट विलम्ब से कारा का गेट खोला गया, जिससे औचक छापेमारी का मूल उद्देश्य निष्प्रभावी हुआ। इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन

करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को "संचयी प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड" अधिरोपित किया गया है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेरूर, पटना सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बाढ़ के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—५८/२०१९—३४७४

27 अप्रैल 2023

चूँकि बिहार—राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि उपकारा, मसौढ़ी के बंदी सुरेश यादव के साथ कारा हिरासत में हुई प्रताड़ना के कारण लगे चोट/जख्म से दिनांक 04.06.2007 को उसकी असामयिक मृत्यु की घटना में श्री रमेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, दाउदनगर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।

श्री प्रसाद का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1), (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रमेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, दाउदनगर के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० वि०प्र०-12-56/2010-3882/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

3 मई 2023

विषयः—विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3727 दिनांक-30.04.2009 द्वारा विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएँ कतिपय शुल्क के आधार पर प्राप्त करने संबंधी संसूचित निर्णय के क्रम में कालांतर में क्रमशः संकल्प ज्ञापांक-7248 दिनांक-04.08.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण हुआ।

सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा प्रभावी अनुमान्यता निम्नवत् है:-

क्र.	मद का संदर्भ	अधिकतम अनुमान्य राशि
1.	प्रति वाद तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹1200/- (एक हजार दो सौ रुपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु	₹ 300/- (तीन सौ रुपये)

2. वर्ष 2014 में निर्धारित उक्त अनुमान्यता के पश्चात काफी समय बीत जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह आवश्यकता पाई गई कि तथ्य विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया में निहित मदों का शुल्क पुनरीक्षित किया जाय ।

3. इस हेतु दिनांक-24.04.2023 को आहूत बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत की गई अनुशंसा के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुरूप शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.	मद का संदर्भ	अधिकतम अनुमान्य राशि
1.	प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹2000/- (दो हजार रुपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु (आशुलेखन सहित)	₹500/- (पाँच सौ रुपये)

4. शुल्क/पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग के बजट उपबंध के अंतर्गत विषय शीर्ष-13 05-विधि प्रभार मद में उपबंधित राशि से अनुमान्य होगा ।

5. तदनुसार एतद्वसंधी पूर्व निर्गत आदेश उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 7—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>